

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के प्रमाणित कोविड-19 केस पर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का बयान

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 जून, 2020) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को सूचना दी गई कि हमारी सैंडलवुड फैसिलिटी (Sandalwood Facility) के एक ट्रांज़िट ऑपरेटर (Transit Operator) की कोविड-19 (COVID-19) की जांच पॉजिटिव आई है।

जैसे ही सिटी को इस बारे में सूचित किया गया, स्टाफ ने तुरंत पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) को संपर्क किया।

प्रभावित ऑपरेटर ने आज सुबह 502 ज़ूम मेन (502 Züm Main) रूट पर और कल, 23 जून को नीचे दिए गए रूट्स पर काम किया था:

- रूट 502 ज़ूम मेन (Route 502 Züm Main)
- रूट 511 ज़ूम स्टील्स (Route 511 Züm Steeles)
- रूट 4 चिंगकूज़ी (Route 4 Chinguacousy)

ऑपरेटर 14 दिनों तक खुद को दूसरों से अलग रखेगा। इस समय, सिटी की प्राथमिकता, प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार को सहयोग प्रदान करना और हमारे कर्मचारियों, सवारियों व समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने में लगातार मदद करना है।

जिन लोगों ने उपरोक्त दिनों को इन बसों पर सफर किया, यदि उन्हें कोई लक्षण नहीं है और वे बिल्कुल ठीक हैं, तो वे अपनी रोज़ाना की दिनचर्या को जारी रख सकते हैं। वे पब्लिक हेल्थ को फोन न करें। जिन लोगों को कोई लक्षण उत्पन्न हों, उन्हें पब्लिक हेल्थ को फोन करने का अनुरोध किया जाता है। यदि आपको एमरजेंसी डाक्टरों की सहायता की जरूरत है, तो कृपया 911 पर फोन करें।

पील पब्लिक हेल्थ यह भी सूचित करता है कि ट्रांज़िट बस पर सवारियों को केवल उतना ही जोखिम है, जितना आम समुदाय में होने से है। इसके अलावा उन्हें कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं है।

पिछले महीने, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने सभी कर्मचारियों को अपनी लोकल हेल्थ यूनिट (स्थानीय स्वास्थ्य यूनिट) से कोविड-19 संबंधी टेस्टिंग करवाने के लिए कहा था। यह अनुरोध, ओनटैरियो सरकार के अतिरिक्त टेस्टिंग प्रदान करने और हर व्यक्ति की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने के फैसले के बाद किया गया था।

आने वाले सप्ताहों में, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, अपनी फैसिलिटीज पर ऑन-साइट टेस्टिंग प्रदान करेगा और सभी कर्मचारियों को लक्षण आने से पहले ही टेस्टिंग करवाने की सलाह देना जारी रखेगा।

जैसे कि सिटी धीरे-धीरे दुबारा खुल रही है, यह कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयास करते हुए, कर्मचारियों, सवारियों और समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद के लिए, हर जरूरी कदम उठा रही है।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय, बसों को हर 24 घंटों में रोगाणु मुक्त किया जा रहा है। फैसिलिटीज और टर्मिनल्स के लंचरूम, मेजों, काउंटेर्स और दरवाजों के हैंडलों को दिन में दो बार साफ किया जा रहा है और रोगाणु मुक्त किया जा रहा है।

पील पब्लिक हेल्थ की सलाह से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हर किसी को गैर-मेडिकल मास्क पहनने की सलाह देती है, खास करके उन जगहों पर, जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो सकता है। सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि यहां भी संभव हो, वे मास्क पहनकर भी, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर, एक-दूसरे से कम से कम दो मीटर (छह फुट) दूर रहकर शारीरिक दूरी जैसे उपायों को कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

वीरवार, 2 जुलाई से शुरू करते हुए, किराए की अदायगी और आगे के दरवाजे से चढ़ने (फ्रंट डोर बोर्डिंग) को दुबारा बहाल किया जाएगा। कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए, पील पब्लिक हेल्थ और ओन्टारियो सरकार (Government of Ontario) की, पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की पुरज़ोर सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से बसों पर और टर्मिनल्स पर, गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा।

हालांकि मास्क जरूरी होंगे, लेकिन छोटे बच्चों या विकलांगों या जो लोग अन्य मेडिकल स्थितियों के कारण मास्क नहीं पहन सकते, उनके लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca